



## प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 13.09.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना फरधान पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व कारतूस सहित अभियुक्त मो० रहीश को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना फरधान पुलिस द्वारा अभियुक्त मो० रहीश पुत्र नूर मोहम्मद नि० ग्राम खरवहिया नं० 1 थाना धौरहरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना फरधान पर आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## थाना धौरहरा पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध और वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 13.09.21 को थाना धौरहरा पुलिस द्वारा अभियुक्त कलीम पुत्र संदीप नि0 ग्राम महाराज नगर थाना धौरहरा खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस सहित तथा अभियुक्त गुफरान पुत्र बाऊ नि0 ग्राम महाराजनगर थाना धौरहरा खीरी को 01 अदद अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। साथ ही 01 नफर वारंटी अभियुक्त अजमुद्दीन पुत्र जमालू नि0 ग्राम सुजानपुर थाना धौरहरा खीरी को गिरफ्तार किया गया।

## थाना निघासन पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध और वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 13.09.21 को थाना निघासन पुलिस द्वारा अभियुक्त छोटू उर्फ सूरज पुत्र कल्लूराम चौहान नि० ग्राम लोनियन पुरवा थाना निघासन खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस सहित तथा अभियुक्त रोहिद उर्फ आसिफ पुत्र असगर अली नि० ग्राम दुबहा थाना निघासन खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। साथ ही 01 नफर वांछित अभियुक्त रामू पुत्र लल्लू नि० दुबहा थाना निघासन खीरी को गिरफ्तार किया गया।

### **थाना खीरी पुलिस द्वारा 01 अदद चाकू सहित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया**

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना खीरी पुलिस द्वारा अभियुक्त संतराम पुत्र हजारी निवासी जगतिया थाना व जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चाकू बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 345/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

## **थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा 01 अदद चाकू सहित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया**

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अभियुक्त मंजीत पुत्र जगजीवन निवासी रुखिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चाकू बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 890/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

## **थाना मैलानी पुलिस द्वारा 02 अदद चाकू सहित 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया**

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मैलानी पुलिस द्वारा अभियुक्तों 1. तोफिक उर्फ मिन्टू पुत्र इस्माइल कुरैसी निवासी अमीरनगर थाना मैलानी 2. अवधेश पुत्र बनवारी लाल निवासी कुकरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 02 अदद चाकू बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

## **थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध तमंचा व 02 अदद कारतूस सहित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया**

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अभियुक्त सुरेश कुमार गौतम पुत्र मटरु गौतम निवासी रुखिया थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा व 02 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 888/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

**शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 219 लीटर अवैध शराब सहित 11 अभियुक्त गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **219 लीटर अवैध कच्ची शराब, 06 अवैध शराब भट्टी सहित बरामद कर 11 अभियुक्त** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **11 अभियोग** पंजीकृत किए गए। विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना निघासन	60 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना गोला	50 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना पलिया	30 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना ईसानगर	29 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना खीरी	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना मैलानी	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	219 लीटर	11 अभियुक्त गिरफ्तार